

नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने सीबीएसई दसवीं के परीक्षा परिणाम में भी बनाए रखा अपना दबदबा –

सन 1954 में स्थापित नेतरहाट आवासीय विद्यालय अपने स्थापना काल से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार या झारखंड में शीर्ष 10 से 20 स्थानों का दावेदार रहा है।

इस वर्ष परीक्षा परिणाम के औसत निर्धारण को लेकर रिजल्ट निकलने में थोड़ा विलंब तो जरूर हुआ परंतु विद्यालय के छात्रों ने पूर्व की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए अधिकतम 99% अंक प्राप्त किया।

जातव्य हो इस वर्ष नेतरहाट आवासीय विद्यालय पहली बार सीबीएससी से संबद्ध हो माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने वाला था। कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत आंतरिक मूल्यांकन कर परिणाम तैयार करने थे।

इस वर्ष कुल 105 परीक्षार्थी शामिल थे। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 27 रही। 80 से 90% के बीच 31 छात्र हैं। वहीं 70 से 80% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 30 रही। विद्यालय के 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं।

विद्यालय के छात्रों में प्रथम स्थान पर 98.80% अंक के साथ चिरंजीवी प्रिंस कुमार द्विवेदी रहे। वहीं 98% अंक चिरंजीवी तन्मय रंजन को प्राप्त हुआ। 96% अंक अंकित कुमार ने प्राप्त कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। 95% अंक प्राप्त करने वाले छात्र चिरंजीवी जतिन कुमार चिरंजीवी राघव एवं चिरंजीवी रवि राज हैं।

विद्यालय के अच्छे औसत निर्धारण एवं परिणाम को लेकर प्राचार्य डॉ संतोष कुमार सिंह एवं सीबीएससी कोऑर्डिनेटर श्री राजेश चंद्र गुप्ता शिक्षक नेतरहाट विद्यालय लगातार सीबीएसई से संपर्क बनाए हुए थे।

प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी ने बेहतर परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सारा श्रेय छात्रों के मेहनत एवं शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को देते हुए सभी को अपनी ओर से बधाई प्रेषित किया एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र संगठन के कुछ सदस्यों ने भी समय-समय पर बेहतर परिणाम के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचार्य ने इस मौके पर उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई संदेश दिया।